



दिनांक- 06.08.2022

थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा मोबाइल लूटने वाले 02 नफर अभियुक्तगणों को मोटर साइकिल सहित किया गया गिरफ्तार !

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी अकबरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा मोबाइल लूट की घटना कारित करने वाले 02 शातिर लुटेरो को दिनांक 06.08.2022 को **01 अदद मोबाइल ओप्पो कम्पनी व 01 अदद मोटर साइकिल** सहित गिरफ्तार किया गया है।

विदित हो कि दिनांक 04.08.2022 को राजकुमार पुत्र जगतनाथ निवासी धर्मसारी थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर जो कि ट्रक ड्राइवर है, द्वारा दी गयी तहरीर जिसमें दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाइल छीन ले जाने की बात अंकित थी जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 530/22 धारा-392 भा0द0वि0 बनाम मो0सा0न0 UP 77 AH 2932 पर सवार 02 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत हुआ। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्तगणों 1. अरुण पुत्र स्व0 रामपाल 2. विशाल पुत्र चित्रवीर निवासीगण चिटिकपुर रनिया थाना अकबरपुर कानपुर देहात को मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक- 06.08.2022 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कब्जे से 01 अदद लूटा गया मोबाइल ओप्पो कम्पनी व घटना कारित करने वाले वाहन 01 अदद मोटर साइकिल यूपी 77 ए एच 2932 प्लेटिना बरामद हुयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

घटना कारित करने का तरीका- पूँछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि वह लोग सूनसान रोड को चिन्हित करते हैं उसके बाद उस रोड से आने जाने वाले व रोड पर खड़े होकर मोबाइल फोन से वार्तालाप करने वाले लोगों की रैकी करते हैं और उन्हें निशाना बनाते हुये उनका फोन लूट कर मौके से हम लोग अपने वाहन से भाग जाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम पता-

1. अरुण पुत्र स्व0 रामपाल निवासी चिटिकपुर रनिया थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
2. विशाल पुत्र चित्रवीर निवासी चिटिकपुर रनिया थाना अकबरपुर कानपुर देहात।

बरामदगी-

- 01 अदद मोबाइल ओप्पो कम्पनी
- 01 अदद मोटर साइकिल UP 77 AH 2932 (बजाज प्लेटिना)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरुण-

1. मु0अ0सं0 530/2022 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विशाल-

1. मु0अ0सं0 530/2022 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रजनीश कुमार वर्मा चौकी प्रभारी रनिया थाना अकबरपुर कानपुर देहात
2. हे0का0 580 सतीषचन्द चौकी रनिया थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
3. का0 122 शैलेन्द्र सिंह चौकी रनिया अकबरपुर कानपुर देहात।

**मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात।**